

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 21, 2014/श्रावण 30, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 81
No. 106] DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2014/SHRAVANA 30, 1936 [N.C.T.D. No. 81

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 21 अगस्त, 2014

सं. फा. 70/45/2006/स्वा. एवं परि. कल्या./खंड-1/6828-6843.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24.9.68 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 24/78/68-डीएच (एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 15.5.2012 के कार्यालय आदेश सं. 70/49/2006-स्वा. एवं परि. कल्या./खंड-IV/पीएफ/2670-2700 दिनांक 22.5.2014 के कार्यालय आदेश सं. 11/101/2011-स्वा. एवं परि. कल्या./2769-86 और दिनांक 04.02.2014 के सं. 4/1074/2012-स्वा. एवं परि. कल्या., न्यायालय मामले न. 825-840 और दिनांक 06.5.2014 के कार्यालय आदेश सं. 70/49/2006-स्वा. एवं परि. कल्या./पीएफ/233-47 के क्रम में और दिनांक 17.01.2014 के पत्र सं. 01 (31)/3/-2011-एपी. /02 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 से दिल्ली स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों की निम्न सूची अनुसार 528 चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ ग्रेड-3 (विभिन्न विषय) और गैर-शिक्षण विशेषज्ञों उप-संवर्ग की क्रमशः नियुक्ति करते हैं।

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (एलोपैथी) नियमावली, 2009 के नियम 6(2) के अन्तर्गत प्रारम्भिक संरचनात्मक अवस्था पर नियुक्त सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
1.	डॉ. भूपेन्द्र नाथ मिश्रा	08.03.1963
2.	डॉ. परमेश्वर राम	31.01.1964
3.	डॉ. अभय कुमार झा	10.01.1966
4.	डॉ. मनोज ढींगरा	14.04.1967
5.	डॉ. शीटा चानना	28.06.1968
6.	डॉ. अर्जुन रॉबिनसन	28.11.1967

7.	डॉ. अमित कुमार मंडल	15.04.1969
8.	डॉ. रीटा राय	08.12.1963
9.	डॉ. राम चन्द्र	05.03.1959
10.	डॉ. बीना बहल	05.08.1960
11.	डॉ. गिरीश कुमार	08.11.1962
12.	डॉ. जानु कुमारी दास	30.01.1963
13.	डॉ. जय प्रकाश पालयिया	14.01.1964
14.	डॉ. मधुलिका गुप्ता	16.06.1965
15.	डॉ. ललित कुमार चौहान	15.03.1969
16.	डॉ. स्वागता बिस्वास	20.12.1969
17.	डॉ. नवीन कुमार	25.12.1969
18.	डॉ. रेणु जैन	05.01.1965
19.	डॉ. राजेंद्र कुमार चोपड़ा	24.04.1959
20.	डॉ. अर्चना सक्सेना	04.04.1968
21.	डॉ. हिमानी मजूमदार	06.11.1951
22.	डॉ. राटा मांगिया	04.12.1956
23.	डॉ. जयश्री कुमार	04.11.1958
24.	डॉ. सुजीता परवाल	13.10.1962
25.	डॉ. आभा रानी	01.06.1967
26.	डॉ. सुशान्ता कुमार नायक	29.10.1968
27.	डॉ. रजना कुमारी	07.06.1969
28.	डॉ. सुजाता सेनापति	05.02.1963
29.	डॉ. मनोज कुमार प्रसाद	07.02.1964
30.	डॉ. लीलाकुंहीरमन	10.11.1964
31.	डॉ. आभा भंडारी	21.03.1961
32.	डॉ. बीना चिल्लानी	09.04.1961
33.	डॉ. बीरेंद्र कुमार झा	06.04.1968
34.	डॉ. पूनम पाल	12.07.1965
35.	डॉ. दीप्ति मिस्तल	09.12.1967
36.	डॉ. सुचेता त्रिपाठी	15.07.1963
37.	डॉ. पैले कामरा	26.07.1966
38.	डॉ. मनोज राज शर्मा	15.11.1967
39.	डॉ. वी.एस. चौहान	21.06.1955
40.	डॉ. सीमा	14.03.1971
41.	डॉ. विनीता त्यागी	21.01.1970
42.	डॉ. देवी राम	12.06.1963
43.	डॉ. विमल कौशल	31.12.1969
44.	डॉ. शिण्टू डूमरा	18.02.1969
45.	डॉ. सीमा दुआ	04.12.1970
46.	डॉ. पूनम तनेजा	30.06.1967
47.	डॉ. रंजना अमर कक्कड़	22.08.1962
48.	डॉ. जरीना सरोजनी परेरा	03.02.1966
49.	डॉ. अंजला चौधरी	05.07.1964

50.	डॉ. रवीन्द्र नारायण दास	07.04.1966
51.	डॉ. सविता सैनी	05.08.1966
52.	डॉ. माला सिंह	02.07.1959
53.	डॉ. समीर पंडित	21.09.1967
54.	डॉ. गायत्री	01.10.1961
55.	डॉ. अनिता पटोलिया	13.09.1969
56.	डॉ. राम रतन राठी	03.02.1960
57.	डॉ. मीनाक्षी गर्ग	01.03.1962
58.	डॉ. कृष्णा भारद्वाज	01.07.1961
59.	डॉ. सविता सिंह	07.04.1966
60.	डॉ. देवालिना सिकंदर	31.12.1962
61.	डॉ. अजन्ता बरूआ दास	01.10.1966
62.	डॉ. गिरीश चन्द्र प्रभात	12.04.1969
63.	डॉ. भावना सेक्सना	21.09.1969
64.	डॉ. छवि गुप्ता	23.03.1972

65.	डॉ. श्यामला सिन्हा	03.11.1970
66.	डॉ. अजय शर्मा	09.10.1968
67.	डॉ. पुलक चन्द्र घागरा	20.02.1971
68.	डॉ. अर्मादिना आर. संगमा	05.03.1966
69.	डॉ. अरुणा सिंह कुशवाह	17.05.1969
70.	डॉ. आलोक सिंह	01.01.1971
71.	डॉ. अत्तर सिंह यादव	10.10.1972
72.	डॉ. विनीता जयसवाल	01.07.1965
73.	डॉ. मीना	10.09.1971
74.	डॉ. कविता चौधरी	28.08.1971
75.	डॉ. बाला शंकर बेरिहा	16.08.1968
76.	डॉ. अनुराधा सिंह	07.11.1970
77.	डॉ. अनिल रंजन	03.08.1972
78.	डॉ. मनोज कुमार गुप्ता	25.04.1970
79.	डॉ. दीपा राय	09.02.1972
80.	डॉ. गरिमा जायसवाल	02.09.1972
81.	डॉ. सुप्रिया कुमारी	17.11.1972
82.	डॉ. नीता सिंगला	24.08.1974
83.	डॉ. अर्चना प्रकाश	26.09.1967
84.	डॉ. नमिता कुमारी	01.04.1968
85.	डॉ. अनुप नाथ	08.01.1969
86.	डॉ. कृष्ण देव	25.03.1969
87.	डॉ. मोहलिसा बोहरा	17.03.1971
88.	डॉ. राजीव कुमार	08.11.1971
89.	डॉ. विपिन यादव	13.11.1971
90.	डॉ. गीता दादा	26.02.1972
91.	डॉ. नजाहत परवीन	22.11.1973
92.	डॉ. नीरज गुप्ता	28.07.1974
93.	डॉ. रचना गुप्ता	27.11.1974
94.	डॉ. कुमार अखिलेश	25.10.1968
95.	डॉ. इन्द्र पाल सिंह साहनी	29.07.1969

96.	डॉ. अनुराग अंजना सिंह	06.02.1971
97.	डॉ. अर्चना कौशिक	02.03.1971
98.	डॉ. सुनील कुमार	17.04.1975
99.	डॉ. विनोद कुमार रस्तोगी	26.12.1968
100.	डॉ. प्रदीप शर्मा	22.08.1969
101.	डॉ. अनुपा सिंघल	03.02.1971
102.	डॉ. अनुजा वासुदेव	26.11.1973
103.	डॉ. राकेश करतार आहूजा	26.06.1974
104.	डॉ. दुष्यंत मिश्र	08.03.1962
105.	डॉ. भरत कुमार अग्रवाल	13.01.1964

106.	डॉ. कुमुद भारती	15.05.1973
107.	डॉ. श्रीनारायण बासना	15.08.1966
108.	डॉ. रणेश अधिकारी	21.07.1970
109.	डॉ. जसवीर सिंह	05.10.1966
110.	डॉ. पंकज शाह	05.12.1973
111.	डॉ. अनुपमा सिंह	18.03.1973
112.	डॉ. ज्योति प्रकाश	05.12.1973
113.	डॉ. दीप माला कौल	15.12.1969
114.	डॉ. नीरज चौधरी	02.02.1968
115.	डॉ. अंजना गंजू	24.08.1968
116.	डॉ. वंदना चोपड़ा नी मल्होत्रा	25.10.1971
117.	डॉ. इंद्राणी मंडल	03.11.1968
118.	डॉ. आलोक सिन्हा	27.06.1970
119.	डॉ. सोलोमी वीओ	23.02.1973
120.	डॉ. अशोक दुआ	01.05.1973
121.	डॉ. विजय पाल खारी	28.04.1971
122.	डॉ. निवेदिता प्रसाद	05.08.1966
123.	डॉ. करुणा सिंह	10.09.1974
124.	डॉ. मोनिका भारानवाल	18.10.1972
125.	डॉ. सुशीला	02.02.1969
126.	डॉ. मीनाक्षी भारद्वाज	29.03.1973
127.	डॉ. तारामती एदा	02.10.1966
128.	डॉ. महेश चौहान	01.01.1969
129.	डॉ. राजेश कोहली	21.09.1969
130.	डॉ. हुकुम सिंह मीणा	18.09.1964
131.	डॉ. देवेन्द्र कुमार	01.08.1965
132.	डॉ. योगेश कटारिया	03.07.1967
133.	डॉ. इंदु सरना	14.11.1968
134.	डॉ. अकबर हैदरी	01.03.1972
135.	डॉ. वीरेंद्र कुमार	06.04.1972
136.	डॉ. रितु सक्सेना	01.07.1972
137.	डॉ. संजय कुमार	13.12.1972
138.	डॉ. दिनेश चावला	14.12.1972

139.	डॉ. सी हीलर	28.01.1973
140.	डॉ. जे तूथांग	05.03.1973
141.	डॉ. अरुणिमा हाजरा	10.06.1973
142.	डॉ. मणिपदमाराभा	12.08.1973
143.	डॉ. विनोद कुमार	21.03.1974
144.	डॉ. अशोक कुमार	11.04.1974
145.	डॉ. विनीत कुमार सोनी	04.09.1974
146.	डॉ. दीप नारायण सिंह तौलिया	21.04.1975
147.	डॉ. रवींद्र कुमार	19.11.1975
148.	डॉ. नितिन कुमार	23.02.1976
149.	डॉ. मीरज कुमार सिंह	20.04.1976
150.	डॉ. चेतनामानकतला	05.11.1976
151.	डॉ. रविंदर सिंह	15.02.1977
152.	डॉ. राज किशोर बेन्तिन	27.12.1963
153.	डॉ. कमलेश सैनी	21.01.1965
154.	डॉ. ममता वर्मा	27.12.1965
155.	डॉ. ज्योति शुक्ला	26.04.1966
156.	डॉ. राम शंकर मिश्रा	10.01.1969
157.	डॉ. बबीता गरबियाल	30.01.1969
158.	डॉ. आर भांकरनारायणन्	14.11.1969
159.	डॉ. जसविन्द्र सिंह	09.01.1970
160.	डॉ. हरलीन कौर	22.07.1970
161.	डॉ. रविन्द्रपाल सिंह ढीगरा	15.10.1971
162.	डॉ. हेमलता रेणु	16.11.1972
163.	डॉ. अजय दलाल	21.12.1972
164.	डॉ. अनिल कुमार	31.12.1972
165.	डॉ. स्तुति सिंह	29.01.1973
166.	डॉ. संजीता बेहरा	30.05.1973
167.	डॉ. राजीव सोलंकी	28.10.1973
168.	डॉ. कुन्दन कुमार	26.01.1974
169.	डॉ. अरविन्द मोहन	16.04.1974
170.	डॉ. भोलेन्द्र कौशिक	10.07.1974
171.	डॉ. हेमा जैन	20.07.1974
172.	डॉ. प्रज्ञा तिवारी	24.08.1974
173.	डॉ. बेबी माधवी डोले	01.09.1974
174.	डॉ. निशु धवन	04.09.1974
175.	डॉ. अंशु यादव	22.01.1975
176.	डॉ. विभोर दुआ	31.03.1975
177.	डॉ. अवनीश भार्गव	28.05.1975
178.	डॉ. पुनीत जेटली	28.05.1975
179.	डॉ. रूपाली गोयल	22.09.1975
180.	डॉ. कुलदीप सिंह	28.09.1975
181.	डॉ. अणिल्लत साहा	28.11.1976
182.	डॉ. लता अग्रवाल	07.10.1969

183.	डॉ. नरिंदर सिंह खुराना	17.12.1969
184.	डॉ. सुकेश मित्तल	31.12.1971
185.	डॉ. वीणा वर्मा	20.02.1972
186.	डॉ. समरजीत गोवर	31.07.1972
187.	डॉ. अमित गुप्ता	07.11.1972
188.	डॉ. बाल कृष्ण स्वर्णकार	08.11.1972
189.	डॉ. सुनीता सोलंकी	06.04.1973
190.	डॉ. शेफाली जैन	09.05.1973
191.	डॉ. भावना जैन	08.11.1973
192.	डॉ. राजीव कुमार	07.12.1973
193.	डॉ. लीना जैन	19.03.1974
194.	डॉ. दीपक चुध	12.12.1974
195.	डॉ. दीप्ति भट्टा	29.09.1975
196.	डॉ. प्रीति प्रभाकर	11.07.1977
197.	डॉ. ब्रजेश नारायण सिंह	16.11.1973
198.	डॉ. संदीप सेनी	26.08.1972
199.	डॉ. सुमेष मराठी	20.11.1973
200.	डॉ. कुमार नरेंद्र मोहन	16.10.1975
201.	डॉ. हिरदेश कुमार	17.08.1964
202.	डॉ. विकास सिन्हा	01.09.1970
203.	डॉ. रीना यादव	23.08.1974
204.	डॉ. सुधीर कुमार गुप्ता	27.03.1976
205.	डॉ. संदीप के. अग्रवाल	12.10.1972
206.	डॉ. नमिता खट्टर	30.06.1969
207.	डॉ. राजेंद्र कुमार	01.08.1963
208.	डॉ. संजय सागर	16.10.1969
209.	डॉ. नवीन मसंद	28.05.1970
210.	डॉ. राखी मित्तल	27.08.1970
211.	डॉ. दीप्ति सचन	24.05.1971
212.	डॉ. उदय कुमार सिंह	13.10.1971
213.	डॉ. सोमेश्वर बोरदोले	01.03.1972
214.	डॉ. नीतू सिंह	21.04.1972
215.	डॉ. कमल सिंह	04.05.1972
216.	डॉ. लीना राउत	15.06.1972
217.	डॉ. ममता गुप्ता	06.07.1972
218.	डॉ. अनुभा पारख	04.03.1973
219.	डॉ. वीरेन्द्र कुमार	23.07.1973
220.	डॉ. मंजरी नाथ मिश्रा	01.09.1973
221.	डॉ. सीतान्त दास	03.12.1973
222.	डॉ. राहुल हांडा	14.03.1974
223.	डॉ. स्वर्ण सिंह	10.05.1974
224.	डॉ. भारत भूषण भारतीय	18.07.1974
225.	डॉ. सोनिका अरोड़ा बाली	18.10.1974
226.	डॉ. मोनिका रेलान	10.12.1974
227.	डॉ. दीपा दुआ	20.01.1975

228.	डॉ. मणिदीप गोस्वामी	02.03.1975
229.	डॉ. अर्चना	30.06.1975
230.	डॉ. मीनाक्षी बोस	29.01.1976
231.	डॉ. पंकज कुमार सिंह	01.01.1977
232.	डॉ. विजय कुमार झा	05.01.1969
233.	डॉ. इम्तियाजुल हक	17.01.1970

234.	डॉ. विशाल खन्ना	06.11.1972
235.	डॉ. अन्यन्य मुखर्जी	22.12.1974
236.	डॉ. चेतल राय	26.10.1977
237.	डॉ. पुष्पा मिश्रा	01.06.1968
238.	डॉ. सोनल शर्मा	24.08.1974
239.	डॉ. रश्मी गुप्ता	20.08.1972
240.	डॉ. सीमा सेठी	25.06.1975
241.	डॉ. सुनीता वीरभान वर्मा	05.03.1967
242.	डॉ. पंकज प्रसाद	06.09.1968
243.	डॉ. जुगमंदेर सिंह घौर	01.10.1969
244.	डॉ. प्रेम चन्द	07.11.1969
245.	डॉ. अमित कुमार त्यागी	15.09.1970
246.	डॉ. कमल कुमार	16.11.1970
247.	डॉ. रीतू चौधरी	02.02.1971
248.	डॉ. मनीष प्रताप सिंह	08.04.1971
249.	डॉ. युद्धवीर सिंह	31.08.1973
250.	डॉ. एस. नाज़रे हुसैन	28.04.1974
251.	डॉ. नीति भाटिया	08.05.1974
252.	डॉ. निवेदिता चक्रवर्ती	12.06.1976
253.	डॉ. संजय सिंह	01.12.1976
254.	डॉ. मधु	23.02.1970
255.	डॉ. सुनील कुमार थपलियाल	22.10.1969
256.	डॉ. सुभांकर दास	26.09.1973
257.	डॉ. पुजा भसीन	29.09.1976
258.	डॉ. राजेश कुमार	23.06.1970
259.	डॉ. अवदेश कुमार भगत	01.09.1969
260.	डॉ. मनोज कुमार	25.12.1971
261.	डॉ. मनीष सेनी	10.10.1976
262.	डॉ. पूनम यादव	20.11.1973
263.	डॉ. अभिषेक विश्वास	13.01.1977
264.	डॉ. अनिल कुमार	21.11.1967
265.	डॉ. संजय राय	15.12.1973
266.	डॉ. नीरज कुमार गर्ग	05.06.1974
267.	डॉ. साधिन हरित	19.06.1976
268.	डॉ. संतोष कुमार	01.05.1977
269.	डॉ. विनय कुमार	23.03.1978
270.	डॉ. सतेन्द्र कुमार	05.02.1970
271.	डॉ. रेखा	27.11.1973
272.	डॉ. मृत्युंजय कुमार	04.07.1974
273.	डॉ. रीतेश रंजन	01.08.1975
274.	डॉ. नगेन्द्र सिंह	16.08.1975
275.	डॉ. अशोक कुमार	06.11.1975
276.	डॉ. सबैय्या साजफ़ी	05.03.1977

277.	डॉ. संत कुमार साहू	20.07.1977
278.	डॉ. मणि शंकर	31.03.1978
279.	डॉ. ब्रिजेश कुमार सिंह	01.06.1978
280.	डॉ. विनल शर्मा	26.10.1978
281.	डॉ. आरती सोनी	18.02.1979
282.	डॉ. सुधीर रंगा	06.02.1977

283.	डॉ. निशाद हरिओम	04.08.1973
284.	डॉ. केडिकुल टेमी	07.12.1973
285.	डा. सौरभ नारायण	06.07.1974
286.	डा. ऋषि कान्चा	30.09.1976
287.	डॉ. लक्ष्मी कुमारी	25.12.1976
288.	डॉ. सतीश चन्द्र यादव	18.03.1977
289.	डॉ. अनिल यादव	30.04.1977
290.	डॉ. अतुल वर्मा	18.05.1977
291.	डॉ. उषा कुमारी	05.01.1978
292.	डॉ. मीत कुमार	01.03.1979
293.	डॉ. रघु राज सिंह	21.06.1968
294.	डॉ. एलिस लालसंगकिम थक	31.12.1968
295.	डॉ. रजनी लोहिया	14.10.1971
296.	डॉ. कवीन्द्र कुमार	26.03.1974
297.	डॉ. शीरीन लांबा	08.06.1975
298.	डॉ. नरेन्द्र कुमार सोलंकी	18.07.1975
299.	डॉ. अक्षय वर्मा	12.05.1977
300.	डॉ. दिनेश कुमार	14.09.1980
301.	डॉ. जुलियाना एक्का	19.06.1970
302.	डॉ. धनंजय कुमार	06.07.1972
303.	डॉ. दीपाली तनेजा नी वर्मा	07.09.1975
304.	डॉ. योगेश कुमार	27.10.1976
305.	डॉ. कामना अग्रवाल	28.09.1979
306.	डॉ. सोनी कुमारी	22.11.1973
307.	डॉ. अर्चना	25.10.1974
308.	डॉ. अश्वनी कुमार	10.03.1976
309.	डॉ. रीटा मोनी सी. बरुआ	01.03.1972
310.	डॉ. महेश कुमार	31.03.1974
311.	डॉ. गौतम के. गुप्ता	17.07.1972
312.	डॉ. दीपशिखा	31.12.1974
313.	डॉ. सुनील शर्मा	16.10.1976
314.	डॉ. सुषमा कुमारी	30.04.1972
315.	डॉ. अजय कुमार	02.01.1970
316.	डॉ. सुशील कुमार	26.07.1972
317.	डॉ. अमित सैनी	01.03.1980
318.	डॉ. वन्दना मल्होत्रा	15.08.1975

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (एलोपैथी) नियमावली, 2009 के नियम 6(2) के अन्तर्गत प्रारम्भिक संरचनात्मक अवस्था पर नियुक्त गैर-शिक्षण विशेषज्ञ की सूची
(विषय के वणानुक्रम अनुसार)

नाम (डॉ.) असंवेदनता

क्र. सं.	डॉ० का नाम	जन्म तिथि
319.	चन्द्रा प्रभाकर	14.06.1965

320.	अंजलि सेठी	13.01.1966
321.	सुनीता भट्ट	18.03.1965
322.	राकेश साहनी	08.07.1965
323.	राजेन्द्रजीत सिंह सिकंद	22.09.1968
324.	महीप कोहली	26.01.1968

325.	ललित मोहन मदान	10.01.1968
326.	जय श्री दोवाल	08.02.1961
327.	रेणु महलदार	04.03.1957
328.	नीरा रानी गुप्ता	28.09.1965
329.	सुप्रिया नरुला	06.06.1968
330.	संजीव कुमार	09.02.1962
331.	सुषमिता सारंगी नी मित्रा	16.12.1961
332.	राजेश बिलाल	01.02.1967
333.	निफिया कौल	10.12.1966
334.	रितु अरोड़ा	26.08.1968
335.	अजय कुमार	07.08.1969
336.	वन्दना रोड	22.02.1972
337.	पारुल मुल्लिक	03.12.1968
338.	गुंजन मनचन्दा	05.11.1966
339.	दीप्ति अग्रवाल	21.03.1973
340.	वन्दना चुघ	06.12.1971
341.	संध्या अग्रवाल	02.07.1971
342.	मोना आर्य	07.09.1970
343.	निधि प्रभा सहगल	21.05.1970
344.	समिता मलिक	04.07.1971
345.	अशीम कुमार	06.06.1962
346.	बृज किशोर वर्मा	10.08.1965
347.	सुमीता कुलश्रेष्ठ	04.01.1968
348.	योगेन्द्र कुमार	04.02.1964
349.	रमीन्दर कौर	25.02.1969
350.	गीता कमल	18.06.1969
351.	धमेन्द्र दहिया	29.06.1969
352.	रेखा सहगल	31.07.1970
353.	सपना बाथला	07.04.1972
354.	राजेन्द्र कुमार	05.08.1972
355.	प्राची गाबा	11.01.1973
356.	अर्चना जैन	08.02.1972
357.	निधि माथुर	18.11.1967
358.	सुरभि मोहन्ती	03.01.1972
359.	एकता गुप्ता	03.03.1974
360.	दलजीत कौर	03.10.1971
361.	अंकित शर्मा	06.04.1974
362.	विभा पराशर	27.03.1975
363.	नवीन कुमार	04.10.1970

नाम (डॉ.) जीव रसायन विज्ञान

364.	नयना मकवाने	08.11.1972
------	-------------	------------

नाम (डॉ.) (दहन/बन एंड प्लास्टिक)

3278 रोड/14-3

365.	अनुराग जैन	26.11.1969
नाम (डॉ.) त्वचा विज्ञान		
366.	चरणजीत सिंह भोघल	26.08.1967
367.	कोमल पाहूजा	16.12.1972
368.	मोइनुल हक	14.08.1973
369.	भारती सचदेवा	03.05.1972
370.	सदीप खुराना	27.11.1973
371.	अदीति नारंग	05.10.1974
नाक, कान, गला		
372.	अशोक शर्मा	01.07.1966
373.	कविता गोयल नी अग्रवाल	08.10.1968
374.	उर्वशी राजदान	20.07.1969
375.	अजय कुमार गुप्ता	12.01.1969
376.	गीतांजलि बुगनैत	17.12.1966
377.	आलोक गुप्ता	21.09.1973
378.	विक्रम वधवा	03.07.1974
नाम (डॉ.) (नेत्र) (नेत्र विज्ञान)		
379.	सुरेन्द्र कुमार नारंग	06.07.1964
380.	दीपिका सेठ	07.11.1966
381.	संतोष	05.03.1957
382.	विजय सिंह कोस्ता	30.06.1966
383.	ज्योति तलवार	14.01.1972
384.	अपर्णा दत्त	20.07.1970
385.	पंकज शर्मा	30.08.1974
नाम (डॉ.) (न्यायालयीय औषधि)		
386.	लक्ष्मी चन्द गुप्ता	06.11.1962
387.	आकाश झांझी	17.03.1971
388.	विनय कुमार सिंह	03.02.1968
389.	परविन्दर सिंह	01.03.1966
390.	सोने लाल	01.04.1967
नाम (डॉ.) आयुर्विज्ञान/औषधि		
391.	विवेक राणा	02.12.1964
392.	योगेन्द्र गुप्ता	02.02.1952
393.	मीरा सैनी	17.08.1960
394.	रंजना गुप्ता	13.06.1956
395.	देश राज	13.11.1966
396.	मनोज कुमार गामी	14.05.1963
397.	विक्रम सिंह रावत	02.01.1968
398.	एन उमा	06.03.1967

399.	योगेश कुमार कुशवाहा	31.12.1967
400.	सुमन लता	01.11.1967
401.	जावेद सलाम	02.09.1961
402.	रितु सक्सेना	17.10.1969
403.	नीति जैन	29.06.1969
404.	अविनाश कुमार	01.07.1969
405.	हरेन्द्र कुमार	13.11.1965
406.	अमित जोहरी	27.08.1972
407.	पंकज गुप्ता	15.09.1971
408.	आर. सुब्बा लक्ष्मी	04.09.1970
409.	रेणु ठाकुर बाली	25.11.1972
410.	समीर कपूर	18.02.1974

नाम (डॉ.) (सूक्ष्म जीव विज्ञान)

411.	शालिनी कक्कड़	14.11.1968
412.	अनुपमा मित्तल	08.02.1968
413.	नलिनी मित्तल	14.09.1971
414.	भारत भूषण काचरु	31.03.1963
415.	माला विनायक	18.08.1967
416.	अनु गोंसाई	06.06.1971
417.	सबरीना बरुआ	15.01.1969
418.	राहुल लाल	24.11.1972

नाम (डॉ.) (तंत्रिका शल्य चिकित्सा)

419.	संजीव कुमार गुप्ता	15.10.1969
420.	सुबोध कुमार गुप्ता	09.10.1969

नाम (डॉ.) (प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ)

421.	मृणालिनी मणि	27.06.1963
422.	भारती रस्तोगी	18.01.1958
423.	अर्चना बजाज	06.10.1960
424.	अनीता राजोरिहा	31.05.1964
425.	ममता पाण्डे	07.09.1966
426.	मोनिका वोहरा पण्डित	19.11.1959
427.	अनुराधा खन्ना	24.09.1963
428.	उर्वशी गुप्ता	11.04.1967
429.	ललिता जैन	19.10.1956
430.	विवेक रंजन	21.11.1956
431.	सरोज अग्रवाल	01.06.1959
432.	आभा शर्मा	09.07.1965
433.	अनुपम निधि	13.07.1969
434.	रचना शर्मा	18.12.1963
435.	दीप शिखा	02.06.1967
436.	नीता सागर	01.03.1970
437.	सुषमा सिन्हा	18.11.1965
438.	सीमा प्रकाश	25.02.1968
439.	रितु प्रसाद खीवाल	15.09.1971

440.	नीरज शर्मा	27.09.1971
441.	सुनीता सेठ	30.12.1968
442.	पूनम सचदेवा	06.06.1971
443.	विनीता गुप्ता	24.07.1971
444.	बालकेश राठी	17.10.1970
445.	सुमीता मेहता	15.10.1969
446.	रितु भित्तल नी गोयल	18.11.1975
447.	शशि लता काबरा	13.02.1968
448.	अपर्णा चतुर्वेदी	23.08.1970
449.	प्राची पुण्डीर	17.02.1972
नाम (डॉ.) (अस्थिरोग)		
450.	गुरुप्रीत सिंह सेठी	02.04.1971
451.	बिनोद कालिता	31.03.1966
452.	नरेश चन्द्र	02.12.1967
453.	जितेन्द्र सिंह	16.10.1967
454.	संजय कुमार आर्या	29.10.1967
455.	सुरेश कुमार	07.10.1956
456.	नवनीत रस्तोगी	15.09.1970
457.	नवनीत कुमार गोयल	15.09.1971
458.	मनीष शर्मा	17.09.1974
459.	हेमन्त शर्मा	19.03.1970
460.	संजय यादव	03.11.1968
461.	रूपम राम मीणा	01.10.1970
462.	आशीष गोयल	27.08.1972
463.	संजीव गभीर	06.07.1969
464.	विनीत कुमार अरोड़ा	13.04.1972
465.	आशुतोष गुप्ता	17.01.1967
466.	समीर मेहता	10.05.1971
467.	जतिन तलवार	30.08.1974
468.	मनीष कपूर	17.04.1970
469.	अनिल अग्रवाल	08.03.1973
नाम (डॉ.) (शिशु चिकित्सा विज्ञान)		
470.	मुकुला मोहिलो	03.06.1971
471.	ध्रुपद इन्द्रानी दत्ता	14.10.1969
472.	रितु चोपड़ा	16.10.1968
473.	तरुण कुमार रवि	01.04.1970
474.	सुशील श्रीवास्तव	01.01.1972
475.	दीप्ति जैन	13.10.1970
476.	दिनेश कुमार सिंह	01.01.1970
477.	विकास त्रिपाठी	06.12.1970
478.	ललन कुमार भारती	24.05.1968
479.	अनिता पण्डित	02.06.1971
480.	अमन प्रताप सिंह	18.05.1972
481.	रुचि गुलाटी	15.10.1973
482.	रितु वर्मा	14.09.1969

483.	हर्ष गुप्ता	12.11.1973
484.	दीपक गुप्ता	06.01.1976
नाम (डॉ.) (विकृति रोग विज्ञान)		
485.	सीमा ग्रोवर	18.10.1966
486.	शुभा अग्रवाल	30.08.1971
487.	रेणु गुप्ता नी दास	24.12.1970
488.	कुसुम चौधरी	12.03.1969
489.	रशमी यादव	29.11.1969
490.	शिखा गुप्ता	01.07.1972
491.	विनीत बंगा	13.09.1972
492.	शमीला मिश्रा	07.05.1969
493.	रुमा पाहवा	14.03.1974
494.	रशमी जैन गुप्ता	01.02.1971
495.	तरुण तंवर	27.02.1970
496.	रशमी जैन	20.08.1972
497.	जया मल्होत्रा	09.02.1974
498.	अरुण आहूजा	17.10.1969
499.	शिवानी पैक	31.12.1970
नाम (डॉ.) (मनोचिकित्सा)		
500.	दिनेश कुमार त्यागी	14.03.1967
501.	अनुज मिश्र	01.08.1970
नाम (डॉ.) (रेडियोलॉजी)		
502.	राजीव रंजन कुमार	05.02.1961
नाम (डॉ.) (शल्य चिकित्सा)		
503.	रेखा दीवान	01.07.1959
504.	इन्द्रपाल सिंह	14.04.1966
505.	सौरभ कुमार	18.06.1966
506.	विजय कुमार	18.04.1967
507.	पूर्णन्दू शेखर सारंगी	11.10.1961
508.	शशांक चौधरी	16.12.1966
509.	पुनीत छिब्रर	05.09.1967
510.	मनिन्दर कौर छाबरा	24.09.1968
511.	अंजू गुप्ता	07.01.1968
512.	अरुण कपूर	19.01.1967
513.	पंकज अग्रवाल	13.06.1966
514.	शंकर दत्त बिष्ट	15.02.1967
515.	मंजू चुघ	12.02.1958
516.	अजय सोनकर	31.12.1963
517.	संजय कुमार सिन्हा	28.09.1970
518.	विनीत गुप्ता	30.06.1973
519.	रोहित अग्रवाल	17.04.1970
520.	अजय कुमार सिंह	11.02.1963

3278 RS/14-4

521.	संजय शर्मा	24.02.1971
522.	भावेश कुमार	15.02.1966

तत्पश्चात्

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (एलोपैथी) नियामवली, 2009 की प्रारम्भिक संरचना में सम्मिलित किए गए छह (06) गैर-शिक्षण विशेषज्ञ डॉक्टरों की सूची

523.	डॉ. जितेन्द्र बहल (शिशु चिकित्सा विज्ञान)	15.08.1970
524.	डॉ. पी.एन. पाण्डे (तंत्रिका शल्य चिकित्सा)	01.01.1963
525.	डॉ. शिप्रा रामपाल (रेडियोलॉजी)	14.06.1966
526.	डॉ. नरेन्द्र कुमार वर्मा (आंख, नाक, गला)	31.12.1965
527.	डॉ. आशीष गोपाल (आंख, नाक, गला)	19.05.1966
528.	डॉ. अक्षय बहादुर (शल्य चिकित्सा)	07.12.1968

इसके अतिरिक्त उक्त वर्णित 528 चिकित्सकों, चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ ग्रेड-III (विभिन्न विषय) का दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 को उनके द्वारा आहरित किया गया वेतन सुरक्षित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अशोक कुमार, उप-सचिव

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st August, 2014

No. F.70/45/2006/H&FW/Vol.IV/PF/6828-6843.—In exercise of the powers conferred under Article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs O.M. No. 24/78/68-DH(S) dated 24-09-68 and in continuation of this officer order Nos. F.70/49/2006/H&FW/Vol.IV/PF/2670-2700 dated 15/05/2012, F.11/101/2011/H&FW/2769-86 dated 22/05/2014, OA/1074/2012/H&FW/Court matter/825-40 dated 04/02/2014 and F.70/49/2006/H&FW/PF/233-47 dated 06/05/2014 and on the recommendation of the Union Public Service Commission vide letter No. F.1/31/(3)/2011-AP-2 dated 17/01/2014, the Lt. Governor of Delhi is pleased to appoint 528 Medical Officers and Specialist Gr.III (various disciplines) as per list below in the GDMO and Non Teaching Specialist sub-cadre respectively of the Delhi Health Service with effect from 23rd December, 2009.

List of General Duty Medical Officers appointed at the initial constitutional stage under Rule 6(2) of the Delhi Health Service (Allopathy) Rules, 2009.

S.NO.	NAME	D.O.B.
1.	Dr. Bhoopendra Nath Mishra	08-03-1963
2.	Dr. Parmeshwar Ram	31-01-1964
3.	Dr. Abhay Kumar Jha	10-01-1966
4.	Dr. Manoj Dhingra	14-04-1967
5.	Dr. Rita Chanana	28-06-1968
6.	Dr. Archana Robinson	28-11-1967
7.	Dr. Amit Kumar Mondal	15-04-1969
8.	Dr. Rita Roy	08-12-1963
9.	Dr. Ram Chandra	05-03-1959
10.	Dr. Beena Bahl	05-08-1960
11.	Dr. Griyesh Kumar	08-11-1962
12.	Dr. Junu Kumari Das	30-01-1963
13.	Dr. Jay Prakash Palyia	14-01-1964
14.	Dr. Madhulika Gupta	16-06-1965
15.	Dr. Lahit Kumar Chauhan	15-03-1969

16.	Dr. Swagata Biswas	20-12-1969
17.	Dr. Naveen Kumar	25-12-1969
18.	Dr. Renu Jain	05-01-1965
19.	Dr. Rajendra Kumar Chopra	24-04-1959
20.	Dr. Archana Saxena	04-04-1968
21.	Dr. Himani Majumdar	06-11-1951
22.	Dr. Reeta Mangia	04-12-1956
23.	Dr. Jayashree Kumar	04-11-1958
24.	Dr. Sucheta Parwal	13-10-1962
25.	Dr. Abha Rani	01-06-1967
26.	Dr. Susanta Kumar Nayak	29-10-1968
27.	Dr. Ranjana Kumari	07-06-1969
28.	Dr. Sujata Senapati	05-02-1963
29.	Dr. Manoj Kumar Prasad	07-02-1964
30.	Dr. Leela Kunhiraman	10-11-1964
31.	Dr. Abha Bhandari	21-03-1961
32.	Dr. Veena Chellani	09-04-1961
33.	Dr. Biendra Kumar Jha	06-04-1968
34.	Dr. Poonam Pal	12-07-1965
35.	Dr. Deepti Mittal	09-12-1967
36.	Dr. Sucheta Tripathy	15-07-1963
37.	Dr. Shalley Kamra	26-07-1966
38.	Dr. Manoj Raj Sharma	15-11-1967
39.	Dr. V.S. Chauhan	21-06-1955
40.	Dr. Seema	14-03-1971
41.	Dr. Vinita Tyagi	21-01-1970
42.	Dr. Devi Ram	12-06-1963
43.	Dr. Vimal Kaushal	31-12-1969
44.	Dr. Shintoo Doomra	18-02-1969
45.	Dr. Seema Dua	04-12-1970
46.	Dr. Poonam Taneja	30-06-1967
47.	Dr. Ranjana Amar Kakkar	22-08-1962
48.	Dr. Zarina Sarojini Pereira	03-02-1966
49.	Dr. Anjala Chaudhary	05-07-1964
50.	Dr. Ravindra Narayan Das	07-04-1966
51.	Dr. Savita Saini	05-08-1966
52.	Dr. Mala Singh	02-07-1959
53.	Dr. Sameer Pandit	21-09-1967
54.	Dr. Gayatri	01-10-1961
55.	Dr. Anita Patholiya	13-09-1969
56.	Dr. Ram Rattan Rathi	03-02-1960
57.	Dr. Meenakshi Garg	01-03-1962
58.	Dr. Krishana Bharadwaj	01-07-1961
59.	Dr. Savita Singh	07-04-1966
60.	Dr. Devalina Sikdar	31-12-1962
61.	Dr. Ajanta Baruah Das	01-10-1966
62.	Dr. Girish Chandra Prabhat	12-04-1969
63.	Dr. Bhavna Saxena	21-09-1969
64.	Dr. Chhavi Gupta	23-03-1972
65.	Dr. Shyamla Sinha	03-11-1970
66.	Dr. Ajay Sharma	09-10-1968
67.	Dr. Pulak Chandra Ghagra	20-02-1971
68.	Dr. Armodina R. Sangma	05-03-1966
69.	Dr. Aruna Singh Kushwah	17-05-1969
70.	Dr. Alok Singh	01-01-1971
71.	Dr. Attar Singh Yadav	10-10-1972
72.	Dr. Vinita Jayaswal	01-07-1965
73.	Dr. Meena	10-09-1971
74.	Dr. Kavita Choudhary	28-08-1971
75.	Dr. Bala Shankar Beriha	16-08-1968
76.	Dr. Anuradha Singh	07-11-1970
77.	Dr. Anil Ranjan	03-08-1972

		25-04-1970
78.	Dr. Manoj Kumar Gupta	09-02-1972
79.	Dr. Deepa Rai	02-09-1972
80.	Dr. Garima Jaiswal	17-11-1972
81.	Dr. Supriya Kumari	24-08-1974
82.	Dr. Neeta Singla	26-09-1967
83.	Dr. Archana Prakash	01-04-1968
84.	Dr. Namita Kumari	08-01-1969
85.	Dr. Anup Nath	25-03-1969
86.	Dr. Krishan Dev	17-03-1971
87.	Dr. Mohalisa Borah	08-11-1971
88.	Dr. Rajeev Kumar	13-11-1971
89.	Dr. Vipin Yadav	26-02-1972
90.	Dr Geeta Dada	22-11-1973
91.	Dr. Nazhat Perveen	28-07-1974
92.	Dr. Neeraj Gupta	27-11-1974
93.	Dr. Rachna Gupta	25-10-1968
94.	Dr. Kumar Akhilesh	29-07-1969
95.	Dr. Inderpal Singh Sahni	06-02-1971
96.	Dr. Anurag Anjana Singh	02-03-1971
97.	Dr Archana Kaushik	17-04-1975
98.	Dr. Sunil Kumar	26-12-1968
99.	Dr. Vinod Kumar Rastogi	22-08-1969
100.	Dr. Pradcep Sharma	03-02-1971
101.	Dr. Anupa Singhal	26-11-1973
102.	Dr. Anuja Vasudeva	26-06-1974
103.	Dr. Rakesh Kartar Ahuja	08-03-1962
104.	Dr. Dushyant Mittal	13-01-1964
105.	Dr. Bharat Kumar Aggarwal	15-05-1973
106.	Dr. Kumud Bharti	15-08-1966
107.	Dr. Shrinarain Basna	21-07-1970
108.	Dr. Ganesh Adhikari	05-10-1966
109.	Dr. Jasbir Singh	05-12-1973
110.	Dr. Pankaj Shah	18-03-1973
111.	Dr. Anupma Singh	05-12-1973
112.	Dr. Jyoti Prakash	15-12-1969
113.	Dr. Deep Mala Kaul	02-02-1968
114.	Dr. Neeraj Chaudhary	24-08-1968
115.	Dr. Anjna Ganjoo	25-10-1971
116.	Dr. Vandana Chopra nee Malhotra	03-11-1968
117.	Dr. Indrani Mandal	27-06-1970
118.	Dr. Alok Sinha	23-02-1973
119.	Dr. Solomi Vio	01-05-1973
120.	Dr. Ashok Dua	28-04-1971
121.	Dr. Vijay Pal Khari	05-08-1966
122.	Dr. Nivedita Prasad	10-09-1974
123.	Dr. Karuna Singh	18-10-1972
124.	Dr. Monika Baranwal	02-02-1969
125.	Dr. Sushila	29-03-1973
126.	Dr. Meenakshi Bhardwaj	02-10-1966
127.	Dr. Taramati Alda	01-01-1969
128.	Dr. Mahesh Chauhan	21-09-1969
129.	Dr. Rajesh Kohli	18-09-1964
130.	Dr. Hukum Singh Meena	01-08-1965
131.	Dr. Davendra Kumar	03-07-1967
132.	Dr. Yogesh Kataria	14-11-1968
133.	Dr. Indu Sarna	01-03-1972
134.	Dr. Akbar Haidari	06-04-1972
135.	Dr. Virender Kumar	01-07-1972
136.	Dr. Ritu Saxena	13-12-1972
137.	Dr. Sanjay Kumar	14-12-1972
138.	Dr. Dinesh Chawla	28-01-1973
139.	Dr. C. Healer	

140.	Dr. J. Touthang	05-03-1973
141.	Dr. Arunima Hajra	10-06-1973
142.	Dr. Manipadma Rabha	12-08-1973
143.	Dr. Vinod Kumar	21-03-1974
144.	Dr. Ashok Kumar	11-04-1974
145.	Dr. Vineet Kumar Soni	04-09-1974
146.	Dr. Deep Narayan Singh Tolia	21-04-1975
147.	Dr. Ravindra Kumar	19-11-1975
148.	Dr. Nitin Kumar	23-02-1976
149.	Dr. Neeraj Kumar Singh	20-04-1976
150.	Dr. Chetna Manaktala	05-11-1976
151.	Dr. Ravinder Singh	15-02-1977
152.	Dr. Raj Kishore Basia	27-12-1963
153.	Dr. Kamlesh Saini	21-01-1965
154.	Dr. Mamta Verma	27-12-1965
155.	Dr. Jyoti Shukla	26-04-1966
156.	Dr. Ram Shankar Mishra	10-01-1969
157.	Dr. Babita Garbiyal	30-01-1969
158.	Dr. R. Sankaranarayanan	14-11-1969
159.	Dr. Jaswinder Singh	09-01-1970
160.	Dr. Harleen Kaur	22-07-1970
161.	Dr. Ravinderpal Singh Dhingra	15-10-1971
162.	Dr. Hemlata Renu	16-11-1972
163.	Dr. Ajay Dalal	21-12-1972
164.	Dr. Anil Kumar	31-12-1972
165.	Dr. Stuti Singh	29-01-1973
166.	Dr. Sanjeeta Behera	30-05-1973
167.	Dr. Rajiv Solanki	28-10-1973
168.	Dr. Kundan Kumar	26-01-1974
169.	Dr. Arvind Mohan	16-04-1974
170.	Dr. Shalainder Kaushik	10-07-1974
171.	Dr. Hema Jain	20-07-1974
172.	Dr. Pragya Tiwari	24-08-1974
173.	Dr. Baby Madhabi Doley	01-09-1974
174.	Dr. Nishu Dhawan	04-09-1974
175.	Dr. Anshu Yadav	22-01-1975
176.	Dr. Vibhor Dua	31-03-1975
177.	Dr. Avnish Bhargava	28-05-1975
178.	Dr. Puneet Jaitley	28-05-1975
179.	Dr. Rupali Goyal	22-09-1975
180.	Dr. Kuldeep Singh	28-09-1975
181.	Dr. Anibrata Saha	28-11-1976
182.	Dr. Lata Agrawal	07-10-1969
183.	Dr. Narinder Singh Khurana	17-12-1969
184.	Dr. Mukesh Mittal	31-12-1971
185.	Dr. Veena Verma	20-02-1972
186.	Dr. Samarjeet Grover	31-07-1972
187.	Dr. Amit Gupta	07-11-1972
188.	Dr. Bal Krishan Swarnkar	08-11-1972
189.	Dr. Sunita Solanki	06-04-1973
190.	Dr. Shefali Jain	09-05-1973
191.	Dr. Bhavana Jain	08-11-1973
192.	Dr. Rajeev Kumar	07-12-1973
193.	Dr. Leena Jain	19-03-1974
194.	Dr. Deepak Chugh	12-12-1974
195.	Dr. Deepti Bhalla	29-09-1975
196.	Dr. Preeti Prabhakar	11-07-1977
197.	Dr. Brajesh Narayan Singh	16-11-1973
198.	Dr. Sundeep Saini	26-08-1972
199.	Dr. Sumesh Rathi	20-11-1973
200.	Dr. Kumar Narendra Mohan	16-10-1975
201.	Dr. Hirdesh Kumar	17-08-1964

202.	Dr. Bikash Sinha	01-09-1970
203.	Dr. Reena Yadav	23-08-1974
204.	Dr. Sudhir Kumar Gupta	27-03-1976
205.	Dr. Sandeep K. Agarwal	12-10-1972
206.	Dr. Namita Khattar	30-06-1969
207.	Dr. Rajendra Kumar	01-08-1963
208.	Dr. Sanjay Sagar	16-10-1969
209.	Dr. Navin Masand	28-05-1970
210.	Dr. Rakhi Mittal	27-08-1970
211.	Dr. Dipti Sachan	24-05-1971
212.	Dr. Uday Kumar Singh	13-10-1971
213.	Dr. Someswar Bordoloi	01-03-1972
214.	Dr. Nitu Singh	21-04-1972
215.	Dr. Kamal Singh	04-05-1972
216.	Dr. Leena Raut	15-06-1972
217.	Dr. Mamta Gupta	06-07-1972
218.	Dr. Anubha Parakh	04-03-1973
219.	Dr. Virender Kumar	23-07-1973
220.	Dr. Manjaree Nath Mishra	01-09-1973
221.	Dr. Sitanta Das	03-12-1973
222.	Dr. Rahul Handa	14-03-1974
223.	Dr. Swarn Singh	10-05-1974
224.	Dr. Bharat Bhushan Bhartiya	18-07-1974
225.	Dr. Sonika Arora Bali	18-10-1974
226.	Dr. Monika Relan	10-12-1974
227.	Dr. Deepa Dua	20-01-1975
228.	Dr. Manideepa Goswami	02-03-1975
229.	Dr. Archana	30-06-1975
230.	Dr. Meenaxi Bose	29-01-1976
231.	Dr. Pankaj Kumar Singh	01-01-1977
232.	Dr. Vijay Kumar Jha	05-01-1969
233.	Dr. Imteyazul Haque	17-01-1970
234.	Dr. Vishal Khanna	06-11-1972
235.	Dr. Ananya Mukherjee	22-12-1974
236.	Dr. Chetal Ray	26-10-1977
237.	Dr. Pushpa Mishra	01-06-1968
238.	Dr. Sonal Sharma	24-08-1974
239.	Dr. Rashmi Gupta	20-08-1972
240.	Dr. Secna Sethi	25-06-1975
241.	Dr. Sunita Virbhan Verma	05-03-1967
242.	Dr. Pankaj Prasad	06-09-1968
243.	Dr. Jugminder Singh Dheer	01-10-1969
244.	Dr. Prem Chand	07-11-1969
245.	Dr. Amit Kumar Tyagi	15-09-1970
246.	Dr. Kamal Kumar	16-11-1970
247.	Dr. Ritu Chaudhary	02-02-1971
248.	Dr. Manish Pratap Singh	08-04-1971
249.	Dr. Yudhvir Singh	31-08-1973
250.	Dr. S. Nazre Hussain	28-04-1974
251.	Dr. Niti Bhatia	08-05-1974
252.	Dr. Nivedita Chakravartty	12-06-1976
253.	Dr. Sanjay Singh	01-12-1976
254.	Dr. Madhu	23-02-1970
255.	Dr. Sunil Kumar Thapliyal	22-10-1969
256.	Dr. Shubhankar Das	26-09-1973
257.	Dr. Puja Bhasin	29-09-1976
258.	Dr. Rajesh Kumar	23-06-1970
259.	Dr. Avadesh Kumar Bhagat	01-09-1969
260.	Dr. Manoj Kumar	25-12-1971
261.	Dr. Manish Saini	10-10-1976
262.	Dr. Poonam Yadav	20-11-1973
263.	Dr. Abhishek Biswas	13-01-1977

264.	Dr. Anil Kumar	21-11-1967
265.	Dr. Sanjay Rai	15-12-1973
266.	Dr. Neeraj Kumar Garg	05-06-1974
267.	Dr. Sachin Harit	19-06-1976
268.	Dr. Santosh Kumar	01-05-1977
269.	Dr. Vinay Kumar	23-03-1978
270.	Dr. Satendra Kumar	05-02-1970
271.	Dr. Rekha	27-11-1973
272.	Dr. Mritunjay Kumar	04-07-1974
273.	Dr. Reetesh Ranjan	01-08-1975
274.	Dr. Nagender Singh	16-08-1975
275.	Dr. Ashok Kumar	06-11-1975
276.	Dr. Sabiya Sajfi	05-03-1977
277.	Dr. Sanat Kumar Sahu	20-07-1977
278.	Dr. Mani Shankar	31-03-1978
279.	Dr. Brijesh Kumar Singh	01-06-1978
280.	Dr. Vinal Sharma	26-10-1978
281.	Dr. Aarti Soni	18-02-1979
282.	Dr. Sudhir Ranga	06-02-1977
283.	Dr. Nishad Hariom	04-08-1973
284.	Dr. Kedikul Temi	07-12-1973
285.	Dr. Saurabh Narayan	06-07-1974
286.	Dr. Rishi Kanava	30-09-1976
287.	Dr. Lakshmi Kumari	25-12-1976
288.	Dr. Satish Chandra Yadav	18-03-1977
289.	Dr. Anil Yadav	30-04-1977
290.	Dr. Atul Verma	18-05-1977
291.	Dr. Usha Kumari	05-01-1978
292.	Dr. Meet Kumar	01-03-1979
293.	Dr. Raghu Raj Singh	21-06-1968
294.	Dr. Alice Lalsangkim Thiek	31-12-1968
295.	Dr. Rajni Lohia	14-10-1971
296.	Dr. Kavindra Kumar	26-03-1974
297.	Dr. Shireen Lamba	08-06-1975
298.	Dr. Narinder Kumar Solanki	18-07-1975
299.	Dr. Akshaya Verma	12-05-1977
300.	Dr. Dinesh Kumar	14-09-1980
301.	Dr. Juliana Ekka	19-06-1970
302.	Dr. Dhananjay Kumar	06-07-1972
303.	Dr. Dipali Taneja Nee Verma	07-09-1975
304.	Dr. Yogesh Kumar	27-10-1976
305.	Dr. Kamna Agarwal	28-09-1979
306.	Dr. Soni Kumari	22-11-1973
307.	Dr. Archana	25-10-1974
308.	Dr. Ashwani Kumar	10-03-1976
309.	Dr. Rita Moni	01-03-1972
310.	Dr. Mahesh Kumar	31-03-1974
311.	Dr. Gautam K. Gupta	17-07-1972
312.	Dr. Deepshikha	31-12-1974
313.	Dr. Sunil Sharma	16-10-1976
314.	Dr. Susma Kumari	30-04-1972
315.	Dr. Ajay Kumar	02-01-1970
316.	Dr. Sushil Kumar	26-07-1972
317.	Dr. Amit Saini	01-03-1980
318.	Dr. Vandna Malhotra	15-08-1975

List of Non-Teaching Specialist appointed at the initial constitutional stage under Rule 6(2) of the Delhi Health Service (Allopathy) Rules, 2009.

(In alphabetical order of discipline)

<u>Sr. No.</u>	<u>Name (Dr.) (Anaesthesia)</u>	<u>D.O.B.</u>
319.	Chandra Prabhakar	14.06.1965
320.	Anjali Sethi	13.01.1966
321.	Sunita Bhatt	18.03.1965
322.	Rakesh Sawhney	08.07.1965
323.	Rajinderjit Singh Sickund	22.09.1968
324.	Maheep Kohli	26.01.1968
325.	Lalit Mohan Madaan	10.01.1968
326.	Jayashree Doval	08.02.1961
327.	Renu Mahaldar	04.03.1957
328.	Necra Rani Gupta	28.09.1965
329.	Supriya Narula	06.06.1968
330.	Sanjeev Kumar	09.02.1962
331.	Susmita Sarangi nee Mitra	16.12.1961
332.	Rajesh Bilal	01.02.1967
333.	Nymphea Kaul	10.12.1966
334.	Ritu Arora	26.08.1968
335.	Ajay Kumar	07.08.1969
336.	Vandana Saith	22.02.1972
337.	Parul Mullick	03.12.1968
338.	Gunjan Manchanda	05.11.1966
339.	Deepti Agarwal	21.03.1973
340.	Vandana Chugh	06.12.1971
341.	Sandhya Agarwal	02.07.1971
342.	Mona Arya	07.09.1970
343.	Nidhi Prabha Sehgal	21.05.1970
344.	Smita Malik	04.07.1971
345.	Asheem Kumar	06.06.1962
346.	Brijkishore Verma	10.08.1965
347.	Sumita Kulsrestha	04.01.1968
348.	Yogendra Kumar	04.02.1964
349.	Raminder Kaur	25.02.1969
350.	Geeta Kamal	18.06.1969
351.	Dharmender Dahiya	29.06.1969
352.	Rekha Sehgal	31.07.1970
353.	Sapna Bathla	07.04.1972
354.	Rajender Kumar	05.08.1972
355.	Prachi Gaba	11.01.1973
356.	Archana Jain	08.02.1972
357.	Nidhi Mathur	18.11.1967
358.	Surabhi Mohanty	03.01.1972

359.	Aikta Gupta	03.03.1974
360.	Daljeet Kaur	03.10.1971
361.	Ankit Sharma	06.04.1974
362.	Vibha Parashar	27.03.1975
363.	Naveen Kumar	04.10.1970

Name (Dr.) (Bio-chemistry)

364.	Naina Makwane	08.11.1972
------	---------------	------------

Name (Dr.) (Burn & Plastic)

365.	Anurag Jain	26.11.1969
------	-------------	------------

Name (Dr.) (Dermatology (Skin))

366.	Charanjeet Singh Bhogal	26.08.1967
367.	Komal Pahuja	16.12.1972
368.	Moinul Haque	14.08.1973
369.	Bharti Sachdeva	03.05.1972
370.	Sandeep Khurana	27.11.1973
371.	Aditi Narang	05.10.1974

Name (Dr.) (E.N.T.)

372.	Ashok Sharma	01.07.1966
373.	Kavita Goyal nee Agrawal	08.10.1968
374.	Urvashi Razdan	20.07.1969
375.	Ajay Kumar Gupta	12.01.1969
376.	Gitanjali Bugnait	17.12.1966
377.	Alok Gupta	21.09.1973
378.	Vikram Wadhwa	03.07.1974

Name (Dr.) (Eye) (Ophthalmology)

379.	Surender Kumar Narang	06.07.1964
380.	Deepika Seth	07.11.1966
381.	Santosh	05.03.1957
382.	Vijay Singh Costa	30.06.1966
383.	Jyoti Talwar	14.01.1972
384.	Aparna Datt	20.07.1970
385.	Pankaj Sharma	30.08.1974

Name (Dr.) (Forensic Medicine)

386.	Laxmi Chand Gupta	06.11.1962
387.	Akash Jhanjee	17.03.1971
388.	Vinjay Kumar Singh	03.02.1968
389.	Pravindra Singh	01.03.1966
390.	Sone Lal	01.04.1967

Name (Dr.) (Medicine)

391.	Vivek Rana	02.12.1964
392.	Yoginder Gupta	02.02.1952

3278 25/14-6

393.	Meera Saini	17.08.1960
394.	Ranjana Gupta	13.06.1956
395.	Desh Raj	13.11.1966
396.	Manoj Kumar Gami	14.05.1963
397.	Vikram Singh Rawat	02.01.1968
398.	N. Uma	06.03.1967
399.	Yogesh Kumar Kushwaha	31.12.1967
400.	Suman Lata	01.11.1967
401.	Javed Salam	02.09.1961
402.	Ritu Saxena	17.10.1969
403.	Neeti Jain	29.06.1969
404.	Avinash Kumar	01.07.1969
405.	Harender Kumar	13.11.1965
406.	Amit Johari	27.08.1972
407.	Pankaj Gupta	15.09.1971
408.	R. Subbalakshmi	04.09.1970
409.	Renu Thaku Bali	25.11.1972
410.	Sameer Kapoor	18.02.1974
<u>Name (Dr.) (Microbiology)</u>		
411.	Shalini Kakar	14.11.1968
412.	Anupama Mittal	08.02.1968
413.	Nalini Mittal	14.09.1971
414.	Bharat Bhushan Kachroo	31.03.1963
415.	Mala Vinayak	18.08.1967
416.	Annu Gosain	06.06.1971
417.	Sabrina Barua	15.01.1969
418.	Rahul Lal	24.11.1972
<u>Name (Dr.) (Neuro Surgery)</u>		
419.	Sanjeev Kumar Gupta	15.10.1969
420.	Subodh Kumar Gupta	09.10.1968
<u>Name (Dr.) (Obst. & Gynae)</u>		
421.	Mrinalini Mani	27.06.1963
422.	Bharti Rastogi	18.01.1958
423.	Archana Bajaj	06.10.1960
424.	Anita Rajorhia	31.05.1964
425.	Mamta Pandey	07.09.1966
426.	Monica Vohra Pandit	19.11.1959
427.	Anuradha Khanna	24.09.1963
428.	Urvashi Gupta	11.04.1967
429.	Lalita Jain	19.10.1956
430.	Vivek Ranjan	21.11.1956

431.	Saroj Aggarwal	01.06.1959
432.	Abha Sharma	09.07.1965
433.	Anupam Nidhi	13.07.1969
434.	Rachna Sharma	18.12.1963
435.	Deep Shikha	02.06.1967
436.	Neeta Sagar	01.03.1970
437.	Sushma Sinha	18.11.1965
438.	Seema Prakash	25.02.1968
439.	Ritu Prasad Khiwal	15.09.1971
440.	Neeraj Sharma	27.09.1971
441.	Sunita Seth	30.12.1968
442.	Poonam Sachdeva	06.06.1971
443.	Vinita Gupta	24.07.1971
444.	Balikesn Rathi	17 10 1970
445.	Sumita Mehta	15.10.1969
446.	Ritu Mittal Nee Goyal	18.11.1975
447.	Shashi Lata Kabra	13.02.1968
448.	Aparna Chaturvedi	23.08.1970
449.	Prachi Pundir	17.02.1972

Name (Dr.) (Orthopaedics)

450.	Gurpreet Singh Sethi	02.04.1971
451.	Binod Kalita	31.03.1966
452.	Naresh Chandra	02.12.1967
453.	Jitendra Singh	16.10.1967
454.	Sanjay Kumar Arya	29.10.1967
455.	Suresh Kumar	07.10.1956
456.	Navneet Rustagi	15.09.1970
457.	Navneet Kumar Goel	15.09.1971
458.	Manish Sharma	17.09.1974
459.	Hemant Sharma	19.03.1970
460.	Sanjay Yadav	03.11.1968
461.	Roopam Ram Meena	01.10.1970
462.	Ashish Goyal	27.08.1972
463.	Sanjeev Gambhir	06.07.1969
464.	Vineet Kumar Arora	13.04.1972
465.	Ashutosh Gupta	17.01.1967
466.	Sameer Mehta	10.05.1971
467.	Jatin Talwar	30.08.1974
468.	Manish Kapoor	17.04.1970
469.	Anil Agarwal	08.03.1973

Name (Dr.) (Paediatrics)

3278 24/14-7

470.	Mukula Mohile	03.06.1971
471.	Drupad Indrani Dutta	14.10.1969
472.	Ritu Chopra	16.10.1968
473.	Tarun Kumar Ravi	01.04.1970
474.	Sushil Srivastava	01.01.1972
475.	Deepti Jain	13.10.1970
476.	Dinesh Kumar Singh	01.01.1970
477.	Vikas Tripathi	06.12.1970
478.	Lalan Kumar Bharti	24.05.1968
479.	Anita Pandit	02.06.1971
480.	Aman Pratap Singh	18.05.1972
481.	Ruchie Gulati	15.10.1973
482.	Ritu Varna	14.09.1969
483.	Harsh Gupta	12.11.1973
484.D	Deepak Gupta	06.01.1976

Name (Dr.) (Pathology)

485.	Seema Grover	18.10.1966
486.	Shubhra Agarwal	30.08.1971
487.	Renu Gupta nee Dass	24.12.1970
488.	Kusum Chaudhary	12.03.1969
489.	Rashmi Yadav	29.11.1969
490.	Shikha Gupta	01.07.1972
491.	Vineet Banga	13.09.1972
492.	Sharmila Mishra	07.05.1969
493.	Ruma Pahwa	14.03.1974
494.	Rashmi Jain Gupta	01.02.1971
495.	Taruna Tanwar	27.02.1970
496.	Rashmi Jain	20.08.1972
497.	Jaya Malhotra	09.02.1972
498.	Arun Ahuja	17.10.1969
499.	Shivani Paik	31.12.1970

Name (Dr.) (Psychiatry)

500.	Dinesh Kumar Tyagi	14.03.1967
501.	Anju Mittal	01.08.1970

Name (Dr.) (Radiology)

502.	Rajeev Ranjan Kumar	05.02.1961
------	---------------------	------------

Name (Dr.) (Surgery)

503.	Rekha Dewan	01.07.1959
504.	Indra Pal Singh	14.04.1966
505.	Saurabh Kumar	18.06.1966
506.	Vijay Kumar	18.04.1967

507.	Purnendu Sekhar Sarangi	11.10.1961
508.	Shashank Chaudhry	16.12.1966
509.	Puneet Chhibber	05.09.1967
510.	Maninder Kaur Chhabra	24.09.1968
511.	Anju Gupta	07.01.1968
512.	Arun Kapur	19.01.1967
513.	Pankaj Agrawal	13.06.1969
514.	Shankar Dutt Bisht	15.02.1967
515.	Manju Chugh	12.08.1958
516.	Ajay Sonkar	31.12.1963
517.	Sanjay Kumar Sinha	28.09.1970
518.	Vineet Gupta	30.06.1973
519.	Rohit Agarwal	17.04.1970
520.	Ajay Kumar Singh	11.02.1963
521.	Sanjay Sharma	24.02.1971
522.	Bhavesh Kumar	15.02.1966

List of six (06) Non-Teaching Specialist doctors who have been inducted in the initial constitution of Delhi Health Service (Allopathy) Rule, 2009 subsequently.

523.	Dr. Jintendra Bahl (Paediatrics)	15.08.1970
524.	Dr. P.N. Pandey (Neuro-Surgery)	01.01.1963
525.	Dr. Shipra Rampal (Radiology)	14.06.1966
526.	Dr. Narendra Kumar Verma (ENT)	31.12.1965
527.	Dr. Ashish Gopal (ENT)	19.05.1966
528.	Dr. Akshay Bahadur (Surgery)	07.12.1968

Further, pay of above mentioned 528 Doctors, Medical officers and Specialist Gr.III (various disciplines) shall be protected as drawn by them on 22nd December, 2009.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

ASHOK KUMAR, Dy. Secy.

गृह पुलिस (II)/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 अगस्त, 2014

सं.फा. 8/302/2014/गृह पुलिस— II/6655.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं. 11011/2/74—यूटीएल (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री वी. के. शुक्ला, अधिवक्ता को राज्य की ओर से सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अन्तर्गत थाना प्रशांत विहार, दिल्ली में एफ.आई.आर. सं. 262/2011 के मामले को संचालित करने के लिये विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं। कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
बी. के. तिवारी, उप-सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 21st August, 2014

F. No. 8/302/2014/HP-II/6655.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Shri V.K. Shukla, Advocate, as Special Public Prosecutor to conduct case FIR No:262/2011 under section 376 Indian Penal Code, P.S. Prashant Vihar, on behalf of the State, in the Court of competent jurisdiction. No extra remuneration shall be paid.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

B. K. TIWARI, Dy. Secy. (Home)

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 21 अगस्त, 2014

सं.फा. 3(349)पोलिसी/वैट/2013/289-310.—इस विभाग की अधिसूचना सं. फा. 3 (349)पोलिसी/वैट/2013/645-657 दिनांक 19/08/2013, के आंशिक संशोधन में, उक्त अधिसूचना दिनांक 01/10/2013 के स्थान पर 01/01/2015 से प्रभावी होगी।

उपर्युक्त अधिसूचना की बाकी सामग्री उसी प्रकार रहेगी।

संजीव खिरवार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(Policy Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 21st August, 2014

No.F.3(349)Policy/VAT/2013/289-310.—In partial modification of this department's Notification No.F.3 (349)Policy/VAT/2013/645-657 dated 19/08/2013, the date of coming into force of the notification may be read as '01/01/2015' instead of '01/10/2013'.

Rest of the contents of the above said notification shall remain unchanged.

SANJEEV KHIRWAR, Commissioner, Value Added Tax